



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 1983/पौष 1, 1905  
No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 1983/PAUSA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रावेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1983

कां०भा० 925(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग) के प्रादेश सं० कां०आ० 85(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/78,  
तारीख 10 फरवरी, 1978, (जिसे हमने उक्त पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा कल्याणी,  
जिला नाडिया (पश्चिमी बंगाल) स्थित मैसर्स नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक  
औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अग्रे पांच वर्ष की अवधि के लिए, 9 फरवरी, 1983 तक जिसमें  
यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था तथा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने  
के लिए प्रबन्ध बोर्ड को प्राविष्ट किया गया था;

और भारत सरकार के आदेश सं. कां.आ. 102(अ)/18क/आई.सी.आर.ए. 83, तारीख 9 फरवरी, 1983 तथा सं.कां.आ. 460(ई)/18क/आई.सी.आर.ए. 83, तारीख 20 जून, 1983 द्वारा उक्त आदेश को 22 दिसम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है विस्तारित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्रबन्ध बोर्ड के अधीन और अवधि के लिए, 30 जून 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बना रहता चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और प्रनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक, की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा।

[का. सं. 2(1)/78-सी.यू.एस.]  
ए. पी. सरबत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1983

S.O. 925(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 85(E)|18A|IDRA|78 dated the 10th February 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the Management of the industrial undertaking of Messrs National Rubber Manufacturers Limited, located at Kalyani, District Nadia (West Bengal) was taken over for a period of five years upto and inclusive of 9th February, 1983 and the Board of Management was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas by the Orders of the Government of India No. S.O. 102(E)|18A|IDRA|83, dated the 9th February, 1983 and No. S.O. 460(E)|18A|IDRA|83, dated the 20th June, 1983, the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 22nd December, 1983;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial un-

dertaking should continue under the management of the said Board of Management for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(1)/78-CUS]  
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

